



जनसम्पर्क कार्यालय : एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर

समाचार

सिंगाजी ताप विद्युत गृह में 25162 पौधों का रोपण पौधों का संरक्षण व संवर्द्धन भविष्य की पीढ़ी के लिए अमृत के समान है : ऊर्जा मंत्री श्री पारस चंद जैन



जबलपुर, 3 जुलाई।
नमामि देवि नर्मदे कार्यक्रम के अंतर्गत वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम अभियान का शुभारंभ प्रभारी मंत्री एवं उर्जा मंत्री श्री पारस चंद जैन ने मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के सिंगाजी ताप विद्युत गृह में पौधा लगाकर किया। सिंगाजी ताप विद्युत गृह में कुल 25 हजार 162 पौधों का रोपण किया गया जिसमें पावर हाउस परिसर में 5 हजार 003, राखड बांध क्षेत्र में 15 हजार 108 एवं ताप विद्युत गृह आवासीय परिसर में 5 हजार 051 पौधे

अधिकारियों, कर्मचारियों व गणमान्य नागरिकों द्वारा रोपित किए गये। मध्यप्रदेश शासन के ऊर्जा मंत्री श्री पारस चंद जैन ने इस अवसर पर सभी को आव्हान करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में मां नर्मदा के संरक्षण के साथ-साथ इस वृहद पौधारोपण के कार्यक्रम से आने वाले समय में हमारी नई पीढ़ी और समाज को स्वस्थ-स्वच्छ पर्यावरण मिलेगा और मां नर्मदा से पूरे प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि बढ़ेगी अतः हम सबका कर्तव्य है कि इन पौधों का जो रोपण किया है उन्हें वृक्ष रूप में आकार देने का सराहनीय कार्य करें। श्री जैन ने कहा कि पौधों का संरक्षण व संवर्द्धन भविष्य की पीढ़ी के लिए अमृत के समान है। इस अवसर पर मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के डायरेक्टर वाणिज्य श्री मंजीत सिंह, श्री बी.एल.नेवल, श्री पी.सी. निमारे सहित विद्युत गृह के अभियंता व कार्मिक उपस्थित थे।

प्रभारी मंत्री श्री जैन ने सिंगाजी ताप विद्युत गृह के वृक्षारोपण के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ओंकारेश्वर में ओंकार पर्वत पर किए जाने वाले पौधारोपण कार्यक्रम में भी सम्मिलित हुए। इस दौरान मांधाता विधायक श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर, कलेक्टर श्री अभिषेक सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. वरदमूर्ति मिश्र एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे।

समाचार क्रमांक: 324/2017

(राकेश पाठक)
वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी